



Department of
Education

VACSWIM

Holiday swimming programs

छुट्टियों में स्विमिंग लेसन

यह महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चे तैरना सीखें।

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे समुद्र-तट, नदियाँ, पूल और पानी के स्रोत हैं। जब बहुत गर्मी हो, तो खेलने, तैराकी करने और गर्मी से राहत पाने के लिए यह बहुत बढ़िया हैं, परन्तु यदि आपके बच्चे तैर नहीं सकते हैं तो ये सुरक्षित नहीं हैं।

तैराकी सीखने से आपकी संतान का पानी में रहने का डर दूर होता है और इससे उसे सुरक्षित रूप से तैरने की योग्यताएँ मिलती हैं।

आपकी संतान VacSwim स्वीमिंग लेसन में तैरना सीख सकती है, ये लेसन अक्टूबर और स्कूल की गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्रदान किए जाते हैं।

5 से 17 साल के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। 5 से 10 दिनों तक के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। सभी क्षमताओं के लोगों के लिए लेसन उपलब्ध हैं, शुरुआत वर्ग से लेकर अच्छे तैराकों तक।

VacSwim के लेसन पूरे परिवार के लिए किफायती हैं और पर्थ तथा रिज़नल क्षेत्रों में बहुत से पूल्स और समुद्र-तटों पर उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट पर अपने नजदीकी स्थान का पता लगाएँ।

अपनी संतान को कार्यक्रम में भर्ती कराने के लिए आपको नामांकन शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि आपके तीन या इससे अधिक बच्चे हैं, तो आप अपने परिवार के लिए छूट प्राप्त कर सकते/सकती हैं। हो सकता है कि आपको उस दिन स्वीमिंग पूल पर प्रवेश शुल्क का भुगतान भी करना पड़े।

यदि आपके पास निम्नलिखित में से कोई रियायत कार्ड है, तो भी आप छूट प्राप्त कर सकते/सकती हैं:

- Companion Card
- Commonwealth Seniors Health Card
- Department of Veterans' Affairs Gold, White or Orange
- Health Care Card
- Out of State Seniors Card
- Pensioner Concession Card
- State Concession Card
- WA Seniors Card

आप निम्नलिखित माध्यमों से नामांकन करा सकते/सकती हैं:

- education.wa.edu.au/vacswim वेबसाइट पर जाकर और ऑनलाइन नामांकन करके, या
- नामांकन फॉर्म ई-मेल करके या डाक से भेजकर (हिंदी में) – इसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

VacSwim 2020-2021

अक्टूबर कार्यक्रम: 29 सितम्बर – 9 अक्टूबर 2020
अक्टूबर 5 दिन: 5 – 9 अक्टूबर 2020

कंट्री एर्ली स्टॉर्ट:	18 -24 दिसम्बर 2020
जनवरी कार्यक्रम 1:	29 दिसम्बर 2020 – 8 जनवरी 2021
जनवरी कार्यक्रम 2:	11 - 22 जनवरी 2021
जनवरी 5 दिन:	4 – 10 जनवरी 2021

VacSwim के शुल्क हैं:

7 से 10 दिनों के कार्यक्रम: चाइल्ड \$30 (\$20 छूट के साथ) फैमिली \$81 (\$54 छूट के साथ)
5 दिनों का कार्यक्रम: चाइल्ड \$16 (\$10.50 छूट के साथ) फैमिली \$41 (\$27.50 छूट के साथ)